

Caution Notice

Attention to all Customers and the General Public

Dear Client,

It has come to our notice that some unknown individuals have been fraudulently using our Company name Angel One Ltd. to carry out scams and illicit activities through the social media. Certain Whatsapp / Telegram groups are wrongfully and deceptively using the brand name and logo of Angel One Limited along with name & image of Senior Officials to deceive the general public into believing it is associated with Angel One Limited. We would like to emphasize that these individuals do not represent Angel One Limited or any of its affiliates/channel partners in any capacity.

It has also been observed that these fraudsters have been reaching out to individuals, claiming to be representatives of our company Angel One Ltd, and offering false services, products, advisory or investment opportunities. They may even provide fraudulent websites, documents, contact details, or mobile apps (resembling the same as Angel One Ltd.) on Android / iOS to trick their victims into believing their authenticity or association with Angel One Limited. We would like to inform everyone that Angel One Limited has no involvement whatsoever in any such activities.

To protect yourself from falling victim to their scams, we advise the following precautions:

- Be cautious of fake accounts that impersonate genuine trading/investments or influencers.
- Double-check the website URLs, reviews, privacy policy, terms & conditions and social media handles and review from the open source.
- Verify & think twice before investing money in such platforms which are mostly coming through such online social media profiles/channels/influencers.
- Avoid sharing sensitive personal or financial information through social media.
- Avoid clicking on suspicious links or downloading unauthorized applications from facebook, instagram, whatsapp, telegram & other social media platforms.
- Beware of suspicious offers: Be wary of any offers or schemes that seem too good to be true. Always conduct thorough research and due

diligence before engaging in any financial transactions or investments. Be cautious while transferring funds to a third-party account.

- Do not share OTP / PIN / Password with anyone.
- Report any fraudulent activity through our official channels. Connect with our support team 18001020 or write to support@angelone.in
- Report online cybercrime related incidents on https://www.cybercrime.gov.in and National Helpline Number 1930 or nearest police station.

Please remember that Angel One Ltd. takes your security and trust seriously and we remain dedicated & committed to providing our customers with reliable and legitimate services.

Thank you for your cooperation and assistance in preventing any further suspicious activities.

Regards, Team Angel One

*Disclaimer - Investments in securities market are subject to market risk, read all the related documents carefully before investing.

This mail provides vital information about new investment options. Still if you want to risk missing such essential updates, you have the option to unsubscribe

VRINDA COFI New Delhi. 10 July

Amazon has rolled out its 10minute delivery service, Amazon Now, in New Delhi - marking a major step forward in its quick-commerce ambitions. The launch comes after a successful pilot in three Bengaluru PIN codes last month, according to a report by Bloomberg.

With this move, Amazon enters direct competition with India's leading quickcommerce players Zomato-owned Blinkit. Swiggy's Instamart, and Zepto - which currently dominate the sub-15-minute delivery market. These platforms offer a wide range of essentials, from groceries and fresh produce to gadgets and

Traditionally known for or next-day same-dav deliveries. Amazon's foray into 10-minute logistics reflects a larger pivot to meet shifting consumer expectations and tap into the growing demand for near-instant service among urban shoppers.

The company officially launched Amazon Now in Bengaluru in June and is now expanding it to a large section of western Delhi. A full-scale launch across the capital is expected soon.

"It's a large part of western Delhi right now, but it's a very rapidly evolving network. So, you'll very soon see it live across Delhi," said Abhinav Singh, vice-president of operations for India and Australia at Amazon, in an interview with a financial daily.

Amazon Now promises 10-minute delivery for a range of daily essentials, including groceries, snacks, meat, personal care products,



At your doorstep

- This initiative aims to meet shifting consumer expectations and demand for near-instant service
- Amazon expects a fullscale launch across the capital very soon under Amazon now
- It will cater to a range of daily essentials, including groceries, snacks, meat, personal care products,

and fresh produce-mirroring the offerings of its quick commerce rivals.

Also, Amazon plans to expand its dark store network. The expansion is backed by a ₹2,000 crore (\$233 million) investment announced last month to boost Amazon's delivery infrastructure in India.

A key component of this strategy is scaling up its dark store network — small fulfilment hubs near high- tive and evolving market.

neighbourhoods demand that facilitate faster last-mile deliveries.

Amazon aims to operate up to 300 dark stores across Bengaluru, Delhi-NCR, and Mumbai by the end of 2025. Rival Flipkart Minutes is targeting 800 such stores across

The launch of Amazon Now is part of the company's broader push in India, where it has already invested over \$11 billion since 2013.

In addition to its quick commerce efforts, Amazon recently opened five new fulfilment centres to support faster delivery in Tier-II and Tier-III cities.

With urban Indian increasingly consumers prioritising convenience and - especially for daily essentials - quick commerce is emerging as a core battleground in e-commerce.

Amazon's entry into the space signals its intent to stay ahead in a highly competi-

AI push: Google bets on India's farms, languages

Tech giant's new AI initiatives target farming productivity, cultural representation

PEERZADA ABRAR Bengaluru, 10 July

Google launched open-source artificial intelligence (AI) initiatives on Thursday, targeting India's agriculture sector and cultural representation in AI models. The tech giant introduced its Agricultural Monitoring and Event Detection (AMED) Application Programming Interface (API), which tracks crop and field data across India to help developers create farming productivity

Researchers at Google DeepMind also partnered with IIT-Kharagpur through the company's Amplify Initiative to build datasets capturing India's linguistic and cultural diversity for integration into large language models (LLMs).

These developments build on Google's sustained investments and commitment to AI research that assist real-world impact across critical areas while also supporting India's AI-focused ambition.

"We've been inspired by the solutions India's innovators have unlocked with these capabilities, demonstrating AI to be a powerful catalyst for multiplier impact and unprecedented effectiveness," said Dr Manish Gupta, senior director for India and Asia Pacific (Apac) at Google DeepMind, during a roundtable in

Google DeepMind and the Partnerships Innovation team have developed AMED API to improve agricultural monitoring across India. Building on sowing and harvesting dates. It the company's Agricultural also offers three years of his-

Landscape Understanding

(ALU) API, the new tool uses

machine learning, crop labels,

and satellite imagery to ident-

ify crop types, field sizes, and

Agri boost

- Google unveiled Agricultural Monitoring and Event Detection to track crop and field data across India
- This tool helps to develop Al-driven solutions that improve farm management
- It is built on Google's sustained investments and commitment to AI research
- It uses metrics like machine learning, crop labels, etc, to check crop health

torical data to track agricultural activity at the field level. These insights aim to help develop AI-driven solutions that improve farm manage-

ment. This is done by address-

ing crop-specific needs such as

soil, water, growth patterns, and climate while also forecasting harvest volumes.

Agriculture and Sustainability Research Lead of Google DeepMind Alok Talekar said the firm is working on accelerating crucial shifts, transforming broad insights to granular, real-time data. "So that increasingly impactful solutions not only translate into benefits for India's farmers, but also bolster the nation against rising climate risks," said Talekar.

TerraStack, a startup incubated at IIT-Bombay, has used ALU API to build a rural land intelligence system. The aim is to support rural lending, land record modernisation, and determine the vulnerability of farms to climate risk. It is exploring AMED API for a rural-lending use case.

Influencer content grabs 2x higher attention than avg digital ads: Kantar

ROSHNI SHEKHAR Mumbai. 10 Iulv

Influencer content in advertisements (ads) grabs a longer attention span, with viewers staying 2.2 times longer on an ad before skipping it of influencers who are today coming compared to average digital ads, according to Kantar, a marketing data and analytics company, which tested 1,350 ads released last year.

The average skip time for branded content in ads is 7.9 seconds while for influencer content (influencer promoted products/services), it is 17.8 seconds. Additionally, the average time viewers spend watching influencer content in ads is 1.4 times higher than other digital ads in India, Kantar said.

Influencer recommendations are also more trusted and influential, with 76 per cent of consumers trusting them compared to traditional ads. This comes at a time when

TATA

influencers are becoming an important part of digital campaigns for several brands to drive audience engagement.

With 50 per cent (of ad) spends in the digital medium, there are a lot in and putting out content, and also becoming brand ambassa-

> Soumya Mohanty, managing director and chief client officer, South Asia, Insights Division of Kantar, told Business Standard. "It is also more effective in

building desire for the brand and salience for the brand compared to an average digital video ad."

While influencer content is gaining prominence in the digital medium and is good for a short period, Mohanty noted that the lack of consistency of an influencer associated with a brand creates a challenge for advertisers. Generally, brands initially use influencers for

ads and later move to celebrities to build long-term associations for brand equity.

"Influencers don't build longterm brand equity as effectively, and it's very fragmented the way brands use influencers. Sometimes, it is difficult for the viewers to understand why an influencer is talking about a particular brand," she added.

However, Mohanty noted that the industry is evolving to build effective brand equity in the digital medium. "Digital is underutilised for

brand-building and often used more for performance marketing. This is expected to change," she said.

On the other hand, with the rise in short-form content and people spending more time on social media, ad durations have also been getting shorter across both television (TV) and digital platforms. On TV, the traditional 30-second ads still exist, but 15-second and 10second commercials are becoming

TECHDIGEST mybs.in/tech

Sony launches **WF-C710N** earbuds

Sony has launched WF-C710N wireless earbuds, featuring AI-enhanced voice pickup for clearer calls, improved active noise cancellation, and a battery life of up to 40 hours. The earbuds also support DSEE upscaling for enhanced audio quality. Priced at ₹8,990, they are now available in India.

Google's Gemini arrives on smartwatches

Google is bringing its AI assistant Gemini to smartwatches running Wear OS, starting with Pixel Watches and devices from brands like Samsung, One-



Plus, OPPO, and Xiaomi. While Gemini offers the same AI capabilities found on smartphones. it has been optimised for quick, glanceable responses on smaller

TENDER NOTICE

Online Item rate E-tenders are invited from reputed agencies for the work mentioned below at Cochin International Airport

	SI. No	Name of Work	Estimate Amount	EMD	Completion Period					
	1	SITC of Under Vehicle Scanning System (UVSS)and Tyre Killer	Rs. 5 Crore + GST	Rs. 10 Lakh	5 Months					

Interested firms may register themselves on the online E-Tendering portal https://etenders.kerala.gov.in and then download the Tender documents. For eligibility criteria and other details, visit our website www.cial.aero.

ANGEL ONE LIMITED

Regd. Off: 601, 6th Floor, Ackruti Star, Central Road, MIDC, Andheri East. Mumbai - 400093 SEBI Registration No (Stock Broker): INZ000161534

PUBLIC NOTICE This is to inform that, certain whatsapp / telegram groups are wrongfully and

deceptively using the brand name, logo of Angel One Limited along with Name & Image of Senior Official to deceive the general public in believing it to be associated with Angel One Limited. Investors and General Public are hereby informed that Angel One Limited

does not have any association and/or relation, directly or indirectly with such Private Whatsapp /Telegram groups in any capacity. Angel One Limited will not be liable in any manner of financial loss and /or consequence of dealing with such Whatsapp / Telegram groups. Please note

that any person dealing with them will be dealing at his/her own risk and For ANGEL ONE LTD Sd/-. Authorized Signatory Date: 11.07.2025

NEW FUND OFFER July 2 - 16



Orchestrated for Consistency


A rules-based strategy built for reliable, risk-adjusted returns

SUNDARAM -**Multi-Factor Fund**

An open ended equity scheme that follows a multi-factor based investment strategy



Consult your Mutual Fund Distributor or call us on 1860 425 7237 for more details.



- This product is suitable for investors who are seeking*
- · Long term capital growth
- · Investments in Equity and Equity related instruments selected based on Multi-Factor Model

Investors should consult their financial advisors if in doubt about whether the product is suitable for them

The risk of the scheme is Very High Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

Registered Office: 9th Floor, Nirmal Building, Nariman Point, Mumbai 400 021. Tel: +91 22 6778 9595 Fax: +91 22 6778 9660 e-mail: investor.relations@tcs.com website: www.tcs.com CIN: L22210MH1995PLC084781

Extract of the audited consolidated interim financial results for three months ended June 30, 2025 (₹ crore) Three months ended June 30, 2025 March 31, 2025 June 30, 2024 Revenue from operations 63.437 2.55.324 62,613 16.979 65,331 Profit before tax 16,231 12,819 48,797 Profit after tax 12,105 Total comprehensive income for the period 14.100 49.386 11.891 Paid up equity share capital (Face value: ₹1 per share) 362 362 362 95,409 90,957 Total reserves (including non-controlling interests)* 95,409 Earnings per equity share:- Basic and diluted (₹) 134.19 33.28

*Balance for three months ended June 30, 2025 represents balance as per the audited consolidated balance sheet for the year ended March 31, 2025 and balance for three months ended June 30, 2024 represents balance as per the audited consolidated balance sheet for the year ended March 31, 2024 as required by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

> Extract of the audited standalone interim financial results for three months ended June 30, 2025 (₹ crore)

	Three months ended June 30, 2025	Year ended March 31, 2025	Three months ended June 30, 2024
Revenue from operations	52,788	2,14,853	52,844
Profit before tax	16,186	62,648	15,878
Profit after tax	12,552	48,057	12,115
Total comprehensive income for the period	12,683	48,361	12,149

Notes

- 1. The audited consolidated financial results and audited standalone financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on July 10, 2025. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.
- 2. The Board of Directors at its meeting held on July 10, 2025, has declared an interim dividend of ₹11.00 per equity share
- 3. The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format for three months ended June 30, 2025, are available on the BSE Limited website (URL: www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Limited website (URL: www.nseindia.com) and on the Company's website (URL: www.tcs.com/investors)



July 10, 2025

K Krithivasan

CEO and Managing Director DIN: 10106739

For and on behalf of the Board of Directors

एआरसी के एयूएम में आ सकती है गिरावट

मुंबई, 10 जुलाई

निजी परिसंपत्ति की पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) की प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) 4 से 6 प्रतिशत से गिरकर 1.05 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

निजी संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) की प्रबंधन के तहत

संपत्ति(एयएम) मौजुदा वित्त वर्ष में 4 से 6 प्रतिशत तक घटकर 1.05 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। क्रिसिल के अनुसार ऋणदाताओं की संपत्ति की गुणवत्ता बेहतर होने के कारण फंसे हुए ऋणों का अधिग्रहण कम हो सकता है। गैर निष्पादित ऋणों के प्रतिभृतिकरण से भी उद्योग का कारोबार प्रभावित हो

भारत को निर्यात बढ़ाना होगाः ठाकुर

उद्योग (सीआईआई) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बंदरगाह, पोत परिवहन और एवं जलमार्ग राज्यमंत्री शांतन् ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के लिए अपने निर्यात को बढ़ाना होगा और इसमें पोत परिवहन एवं जलमार्ग क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाषा

इरेडा के बॉन्ड पर अब नहीं लगेगा कर

सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी के बॉन्ड पर अब कर नहीं लगेगा। इस कदम से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में और निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। सीबीडीटी के नियम के मुताबिक बॉन्ड पर छट मिलेगी।



उपराक्त क्षाय हतु मुहस्य जायन जानागत है। जायक जानागरा है। तहुए कृपया बैंक की वंबसाइट **www.idbibank.in** पर जाएँ । **आवेदन जमा** करने की अंतिम तिथि 4 अगरत, 2025, शाम 4:00 बजे से पूर्व । नोटः उपरोक्त निविदा के संबंध में कोई भी अतिरिक्त परिशिष्ट/ शुद्धिपत्र/ तिथि विस्तार/ स्पष्टीकरण/ बीलीदाताओं के प्रश्नों के उत्तर केंवल बैंक की वेब्साइट पर ही प्रकृषित किए जाएँगे और समाचार पत्रों में अलग से कोई थानः मुंबई, दिनांकः 11 जुलाई, 2025

ANGEL ONE LIMITED

Regd. Off: 601, 6th Floor, Ackruti Star, Central Road, MIDC, Andheri East Mumbai - 400093 SEBI Registration No (Stock Broker): INZ000161534

PUBLIC NOTICE

This is to inform that, certain whatsapp / telegram groups are wrongfully and deceptively using the brand name, logo of Angel One Limited along with Name & Image of Senior Official to deceive the general public in believing it to be

associated with Angel One Limited. Investors and General Public are hereby informed that Angel One Limited does not have any association and/or relation, directly or indirectly with such $\label{private Whatsapp / Telegram groups in any capacity.} Private Whatsapp / Telegram groups in any capacity.$

Angel One Limited will not be liable in any manner of financial loss and /or consequence of dealing with such Whatsapp / Telegram groups. Please note that any person dealing with them will be dealing at his/her own risk and For ANGEL ONE LTD

Date: 11.07.2025

🗟 COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED

TENDER NOTICE

Online Item rate E-tenders are invited from reputed agencies for the work mentioned below at Cochin International Airport

	mornand polovi at opposition at a mornal and						
SI. No	Name of Work	Estimate Amount	EMD	Completion Period			
1	SITC of Under Vehicle Scanning System (UVSS)and Tyre Killer	Rs. 5 Crore + GST	Rs. 10 Lakh	5 Months			

Interested firms may register themselves on the online E-Tendering portal https://etenders.kerala.gov.in and then download the Tender documents. For eligibility criteria and other details, visit our website www.cial.aero. Sd/- Managing Director

Indian Overseas Bank सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 002 इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) निम्नलिखित के लिए बोली लगाने हेतु आमंत्रित करता है

a) उत्कृष्टता प्रीक्षण केंद्र (टीसीओई) की स्थापना हेतु सेवा प्रदाता के चूयन हेतु सरकारी ई-मार्केट पोर्टल संदर्भ संख्या:- जीईएम / 2025 / बी / 6426097 दिनांकित 07.07.2025

b) परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) और परिचालन लचीलापन (ओआर) के लिए एक सॉफ्टवेयर समाधान की खरीद और कार्यान्वयन हेतु सरकारी ई-मार्केट पोर्टल संदर्भ संख्या:- जीईएम / 2025 / बी / 6421033 दिनांकित 07.07.2025

 ट) स्टार्टर किट और पिन मेलर के साथ एटीएम-कम-डेबिट कार्ड की आपूर्ति, मुद्रण और निजीकरण के लिए - एनसीएमसी कार्ड सरकारी ई-मार्केट पोर्टल संदर्भ संख्या: - जीईएम/2025/ बी/6371161 दिनांकित 24.06.2025

उपर्युक्त निविदा के लिए जीईएम दस्तावेज उल्लिखित वेबसाइटों पर <u>www.iob.in</u> एव <u>www.gem.gov.in</u> उपलब्ध है, जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा का विवरण और भविष्य में किए जाने वाले किसी भी संशोधन के लिए, उक्त वेबसाइट <u>www.gem.gov.i</u>n का संदर्भ लेते रहें।



एनएमडीसी लिमिटेड

निविदा पूछताछ सं. मु.(वर्कस)/संविदा/इन्टग्रेटिड एमआरएसएस/ डीआईओएम / 2025 / 1068 / 244 दिनांकः 15 / 03 / 2025 <u>वर्कस प्रभाग</u>

> संविदा विभाग शद्धिपत्र संख्या XI

एनएमडीसी लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की एव 'नवरत्न'' कंपनी है जो कर्नाटक के दोणिमले में स्क्रीनिंग प्लांट—II (एसपी—II) कॉम्प्लेक्स एकीकृत मुख्य रिसीविंग तथा स्टेपडाउन सबस्टेशन (एमआरएसएस) के लिए डिजाइन इंजीनियरिंग, विनिर्माण, आपूर्ति, भंडारण, साइट पर हैंडलिंग, सिविल एवं स्ट्रक्चरल वर्क इरेकशन, परीक्षण, कमीशनिंग तथा प्रदर्शन गारंटी के निष्पादन कार्य के लिए निम्नलिखित निविदा की तकनीकी पात्रता / अपेक्षित योग्यताओं में संशोधन (जैसा कि दिनांक 10 / 07 / 2025 के शुद्धिपत्र संख्या XI में दर्शाया गया है) के संबंध में यह प्रेस अधिसूचना जारी

उपरोक्त निविदा की विस्तृत शुद्धिपत्र संख्या XI, निविदा दस्तावेज तथा अन्य शुद्धिपत्र निम्नलिखित वेबसाइट लिंकों से अवलोकन तथा / अथवा | डाउनलोड किए जा सकते हैं: 1. एनएमडीसी वेबसाइट **- http:@@nmdcportals.nmdc.co.in@nmdcte**nder

2. केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपी पोर्टल) - https://eprocure.gov.in

3. एमएसटीसी पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ एमएसटीर्स गोर्टल से उपरोक्त निविदा के विस्तृत शुद्धिपत्र संख्या XI, निविदा दस्तावेज तथा अन्य शुद्धिपत्र एक्सेस करने के लिए बोलीकर्ताओं को एमएसटीसी वेबसाइट पर जाएं (कम्पैटबिलटी के लि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का उपयोग करें) और निविदा संख्या **एनएमडीसी** / हेडऑफिस/संविदा/44/24-25/ईटी/845 सर्च करें।

बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि **केवल एमएसटीसी पोर्टल** के माध्यम से ऑनलाइर अपनी बोली प्रस्तुत करें। ऑनलाइन के माध्यम से बोली प्रस्तुत करने हेतु विस्तृत विवरण एनआईटी दिए गए हैं। शुद्धिपत्र, भविष्य में यदि कोई हो, के लिए बोलीकर्ताओं को नियमित आधार फ एनएमडीसी वेबसाइट / सीपीपी पोर्टल / एमएसटीसी वेबसाइटों को देखना अपेक्षित है।

अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए निम्नांकित से संपर्क किया जा सकता है। महाप्रबंधक (संविदा), एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद, फैक्स नं. 040—23534746, फोन नं 040—23532800. ई—मेल : contracts@nmdc.co.in

> एनएमडीसी लि. एवं उनकी ओर र अधिशासी निदेशक (वर्कस)

तेल मंत्रालय की अमेरिकी शुल्क पर नजर

शुभायन चक्रवर्ती नई दिल्ली, 10 जुलाई

🔫 कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और युरेनियम खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की धमकी के बाद केंद्र सरकार अमेरिका की होने वाली घोषणाओं पर नजर रख रही है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस, भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है।

टंप ने 9 जलाई को सार्वजनिक रूप से एक प्रस्तावित कानून का समर्थन किया था, जिस रूस से ऊर्जा खरीदने पर भारत और चीन जैसे देशों पर 500 प्रतिशत शुल्क थोपने का प्रावधान शामिल है। रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम द्वारा प्रस्तावित कानून 'सैंक्शनिंग रशिया ऐक्ट ऑफ 2025' में रूस के राजनेताओं, व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं के खिलाफ कडे प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान किया गया है। अमेरिकी मीडिया द्वारा दी गई जानकारी के मृताबिक द्विदलीय समर्थन होने के कारण यह विधेयक जल्द ही अमेरिकी सीनेट से पारित हो सकता है। बहरहाल पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि अभी कोई चिंता की बात नहीं है।एक अधिकारी ने कहा, 'पिछले 3 वर्षों में और खासकर 2025 में रूस से तेल आयात में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। भारत ने इस मामले में सभी अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन जारी रखा है। हम अमेरिका-रूस संबंधों में हो रही प्रगति पर लगातार नजर रख रहे हैं, जो बहुत अस्थिर हो गए हैं। भारत और अमेरिका सक्रिय रूप से व्यापार संबंध बढ़ाने में लगे हैं और अमेरिका इसे गंवाना नहीं चाएगा।' बातचीत की सुस्त रफ्तार के कारण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पतीन से निराश डॉनल्ड टंप ने रूस के खिलाफ अगले

वित्त वर्ष 2023 से बढ़ा रूस से तेल आयात



वित्त वर्ष हिस्सेदारी** 2019-20 1.75 1.71 2020-21 0.94 1.59 2021-22 2.25 2.1 2022-23 31.02 19.22 2023-24 46.48 33.38 2024-25 50.28 35.14 *राशि अरब डॉलर में

**भारत के कल वैश्विक तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी प्रतिशत में स्रोतः वाणिज्य विभाग

चरण के प्रतिबंधों की चेतावनी दी थी। ट्रंप ने संकेत दिए थे कि अमेरिका उन देशों पर 25 से 50 प्रतिशत शुल्क लगा सकता है, जो युद्ध विराम पर सहमति न बनने के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे।

विविधीकरण जारी

इस दौरान पश्चिम एशिया के भारत के पारंपरिक भागीदारों से आयात स्थिर रहा है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि भारत ने कच्चे तेल के स्रोतों का पर्याप्त विविधीकरण कर लिया है।

आधिकारिक आंकडों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025 में रूस के बाद इराक (27.35 अरब डॉलर). सऊदी अरब (20.09 अरब डॉलर) और संयुक्त अरब अमीरात (13.86 अरब डॉलर) भारत के कच्चे तेल के दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे बड़े स्रोत बने रहे। इन देशों से आने वाले कच्चे तेल की हिस्सेदारी में हाल के महीनों में धीमी, लेकिन स्थिर वृद्धि देखी गई है। इसकी वजह यह है कि रूसी कच्चे तेल पर छूट कम हो गई है और सरकार ने अपने तेल आयात के विविधीकरण को प्राथमिकता दी है।सूत्रों ने कहा कि ट्रंप की ताजा धमकी ने सरकारी अधिकारियों को परेशान कर दिया है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025 में रूस का भारत के कच्चे तेल के आयात में मुल्य के हिसाब से 35.14 प्रतिशत हिस्सा था, जो वित्त वर्ष 2024 में 33.37 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023 में 19.22 प्रतिशत था। फरवरी 2022 में यूक्रेन रूस संघर्ष शुरू होने से पहले भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत

डब्ल्यूटीओ में जवाबी शुल्क के प्रस्ताव में किया संशोधन

भारत ने इस्पात और एल्युमीनियम पर अमेरिकी शुल्क को लेकर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानदंडों के तहत अमेरिका के खिलाफ जवाबी शल्क लगाने के अपने प्रस्ताव को संशोधित किया है। अमेरिकी सरकार के शुल्क में और वृद्धि के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। अमेरिका ने पहली बार 12 मार्च को एल्यमीनियम, इस्पात और उससे तैयार वस्तओं के आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया था। फिर, तीन जुन को शुल्क को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। विश्व व्यापार संगठन ने बधवार को कहा. 'वस्त व्यापार परिषद और रक्षोपाय समिति को 12 मई को दी गई अपनी पूर्व अधिसूचना के साथ, भारत उत्पादों और शुल्क दरों की समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह अनुरोध अमेरिका के शुल्क दर को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के जवाब में किया गया है।'

यह पत्र भारत के अनुरोध पर डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों को दिया गया है। इसमें कहा गया, 'रक्षोपाय उपायों से भारत में उत्पादित संबंधित उत्पादों का अमेरिका में 7.6 अरब डॉलर का आयात प्रभावित होगा। इस पर शल्क संग्रह 3.82 अरब डॉलर होगा।' इसको ध्यान में रखते हुए, भारत के प्रस्तावित रियायतों के निलंबन के परिणामस्वरूप अमेरिका में उत्पादित वस्तओं पर भी उतनी ही राशि का शुल्क वसुला जाएगा। इससे पहले, 12 मई के पत्र में, शुल्क संग्रह का आंकड़ा 1.91 अरब डॉलर बताया गया था। डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने 2018 में कुछ इस्पात वस्तुओं पर 25 प्रतिशत और एल्युमीनियम उत्पादों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाया था। जवाबी कार्रवाई में, भारत ने 28 अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाया था। भाषा

तेल कंपनियों को एलपीजी की बिक्री से हुए नुकसान की जल्द भरपाई कर सकती है सरकार

सरकार पिछले 15 महीने में लागत से अधिकारी ने यह जानकारी दी। कम कीमत पर रसोई गैस (एलपीजी) बेचने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान (एचपीसीएल) 30,000-35,000 करोड़ रुपये की

उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय वास्तविक घाटे या हानि तथा उसकी भरपाई के लिए तंत्र पर काम कर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) के केंद्रीय बजट में सरकार ने घाटे की भरपाई के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। हालांकि सरकार ने अप्रैल में सब्सिडी दे सकती है। एक वरिष्ठ पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क

बढ़ाकर 32,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाया। वित्त मंत्रालय इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग इस्तेमाल लागत से कम कीमत पर की गई बिक्री से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कर सकता है।

अधिकारी ने कहा, 'तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) सरकार का हिस्सा हैं। नुकसान की भरपाई की जाएगी। हम मुल्यांकन कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ। उन्हें हुए नुकसान की भरपाई करने के तौर-तरीकों पर भी विचार किया जा रहा

घरेल रसोई गैस की कीमतों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है ताकि आम जनता को ऊंची बाजार दरों से बचाया जा सके। नियंत्रित कीमतें सऊदी अरब के घरेलू रसोई गैस (सीपी) से कम हैं जो घरेल रसोई गैस की कीमत तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय मानक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घरेलू रसोई गैस का उत्पादन स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और ईंधन का आयात करना पड़ता है। इससे ईंधन खुदरा विक्रेताओं को लागत से कम कीमत पर बिक्री करनी पड़ती है और उन्हें नुकसान होता है।

जीवन बीमा प्रीमियम 4.3% बढ़ा समझौते की समीक्षा के लिए

आतिरा वारियर मुंबई, 10 जुलाई

जीवन बीमा कंपनियों के प्रीमियम में इस वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि (वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही) में बीते साल की इस अवधि की तुलना में 4.25 प्रतिशत की सुस्त वृद्धि दर्ज हुई है। इस पर आधार का भी असर पडा है।

जीवन बीमा परिषद के जारी आंकड़ों

के अनुसार वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाहीँ में जीवन बीमा के नए बीमा का प्रीमियम (एनबीपी) सालाना आधार पर 4.25 प्रतिशत बढ़कर 93,544.54 करोड़ रुपये हो गया जबकि यह वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में 89.726.7 सरेंडर मल्य के मानदंड 1 अक्टबर. 2024 से प्रभावी होने के बाद वित्त वर्ष 25 की अप्रैल जन अवधि में करीब 23 प्रतिशत वृद्धि दर्जे की थी। हालांकि उद्योग ने अब नए मानदंडों के अनुरूप अपने



जीवन बीमा के नए बीमा का प्रीमियम सालाना आधार पर 4.25 प्रतिशत बढ़कर 93,544.54 करोड़ रुपये

को समायोजित कर लिया है। वित्त वर्ष करोड़ रुपये था। जीवन बीमा कंपनियों ने 26 की पहली तिमाही में भारतीय जीवन इंश्योरेंस ने सालाना आधार पर 14.51 बीमा ने 3.43 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 59,410.68 करोड़ रुपये दर्ज किए थे। बाजार की अग्रणी एलआईसी ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में बीते वर्ष की इस अवधि की तलना में 2.3 प्रतिशत

दर्ज कर 45,689.08 करोड़ रुपये के प्रीमियम की वृद्धि दर्ज की। पूरे समृह बीमा खंड ने 2.93 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 46,907.01 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। दुसरी तरफ, निजी जीवन

बीमाकर्ताओं ने अपने प्रीमियम में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 34.133.86 करोड़ रुपये दर्ज किए, जो पिछले साल 32,285.8 करोड़ रुपये थे। इसे व्यक्तिगत खंड में 19,752.66 करोड़ रुपये की स्वस्थ वृद्धि का समर्थन मिला।

निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बीमाकर्ता एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने बीते वर्ष की तुलना में 3.3 प्रतिशत वृद्धि के साथ 7,264.8 करोड़ रुपये का प्रीमियम दर्ज किया। इस क्रम में एचडीएफसी लाइफ प्रतिशत वृद्धि के साथ 7,489.3 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने 6.47 प्रतिशत वृद्धि के साथ 4,012.24 करोड़ रुपये

आसियान से बातचीत जारी

श्रेया नंदी नई दिल्ली, 10 जुलाई

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयुष गोयल ने गरुवार को कहा कि मौजदा व्यापार समझौते की समीक्षा करने के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के साथ चर्चा चल रही है। इसमें मौजूदा चुनौतियों पर विशेष ध्यान

गोयल और मलेशिया के उद्योग मंत्री टी जफरुल अजीज के बीच बैठक के दौरान इस विषय पर बातचीत हुई। मलेशिया आर्थिक मामलों पर आसियान में भारत का स्थार्य कोऑर्डिनेटर भी है। आसियान में ब्रुनेई, दारुस्लाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

दोनों मंत्रियों ने 'निष्पक्ष व्यापार' प्रथाएं सुनिश्चित करने के लिए तेजी से चर्चा करने की जरूरत पर भी बात की। साथ ही भारत और आसियान देशों के बीच व्यापक व्यापार समझौते को आगे बढाने पर भी चर्चा की गई। गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मलेशिया के निवेश, व्यापार और उद्योग मंत्री टी जफरुल अजीज के साथ सार्थक बैठक हुई। निष्पक्ष व्यापार और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए आसियान के सदस्य देशों के साथ तेज़ी से बातचीत की आशा है। हमने दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) पर आगे की बातचीत पर भी चर्चा की।'भारत और आसियान के बीच व्यापार समझौते की सुस्त रफ्तार को देखते हुए यह बैठक महत्त्वपूर्ण है। अगस्त 2023 में दोनों पक्षों ने वस्तओं पर हए मौजूदा समझौते की 2025 तक पूर्ण समीक्षा



पीयुष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

की घोषणा की थी। करीब आधे दशक से ज्यादा समय से भारत व्यापार समझौते की तत्काल समीक्षा की जरूरत पर जोर दे रहा है, क्योंकि आसियान देशों से भारत को होने वाले आयात में तेज वृद्धि हुई है, जबकि भारत से निर्यात इसके आयात की तुलना में सुस्त है। भारतीय उद्योग भी सभी आसियान देशों में उचित व बाजार तक समान पहुंच की मांग कर रहा है।

इसके पहले गोयल ने भारत और आसियान के बीच व्यापार समझौते को गलत संकल्पना वाला और भारत के उद्योगों के लिए अनुचित करार दिया था। पिछले साल बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में गोयल ने कहा था कि अगर आसियान देश गैर कर बाधाओं को दूर नहीं करते हैं तो भारत जवाबी कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है। सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान भारत ने 38.96 अरब डॉलर की वस्तु का निर्यात किया, जबकि आयात 5.6 प्रतिशत बढ़कर 84.16 अरब डॉलर हो गया है।

एलआईसी में अल्पांश हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

बीमा निगम (एलआईसी) में और हिस्सेदारी बेचने पर काम कर रही है। विनिवेश विभाग इस लेन-देन की बारीकियों पर काम करेगा। सुत्रों ने यह जानकारी दी।

सरकार के पास वर्तमान में एलआईसी में 96.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उसने मई, 2022 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से 902-949 रुपये प्रति शेयर के मुल्य दायरे पर 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। इस शेयर बिक्रों से सरकार को लगभग 21,000 करोड़ रुपये मिले थे। सुत्रों ने बताया कि सरकार ने बिक्री पेशकश (ओएफएस) मार्ग के माध्यम से एलआईसी में आगे शेयर बिक्री के लिए

अपनी मंजरी दे दी है और इस पर चर्चा अभी शुरुआती चरण में है। एक सूत्र ने कहा, 'बाजार की स्थिति को देखना और हिस्सेदारी बिक्री को अंतिम रूप देना विनिवेश विभाग पर निर्भर है।'

सरकार को 16 मई, 2027 तक अनिवार्य 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता की जरूरत को पूरा करने के लिए एलआईसी में 6.5 प्रतिशत और हिस्सेदारी बेचने की जरूरत है। एक सूत्र ने बताया कि हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा, कीमत और समय पर फैसला आने वाले समय में किया जाएगा। एलआईसी का मौजुदा बाजार पुंजीकरण 5.85 लाख करोड़ रुपये है।

एनएचसीएक्स पर नियंत्रण चाहता है वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जुलाई

वित्त मंत्रालय स्वास्थ्य बीमा के दावों की पारदर्शिता व उपभोक्ताओं की शिकायतों को कम करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म नैशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज (एनएचसीएक्स) पर नियंत्रण चाहता है। अभी एनएचसीएक्स स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय के संपर्क में है।

'बीमा कंपनियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और बीमित व्यक्तियों को एक ही मंच पर लाने का विचार है। इससे पारदर्शिता बढ़ाई जा सकेगी। इसके अलावा भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण के तहत बेहतर

विनियमन तय किया जा सकेगा। एनएचसीएक्स स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और दावों को सुव्यवस्थित करने के लिए बीमा कंपनियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सरकारी बीमा योजना प्रशासकों को जोडता है। अधिकारी ने कहा 'हम स्वास्थ्य

बीमा दावों की प्रक्रिया को कहीं

अधिक पारदर्शी बनाना चाहते हैं। कई मामलों में बीमाकर्ताओं और नियामकों ने यह देखा है कि अस्पताल बीमित व्यक्तियों के लिए बिल को बढा-चढाकर पेश करते हैं।' सुत्र ने आगे कहा कि इससे

अस्पतालों और बीमाकर्ताओं दोनों की मोलभाव करने की क्षमता में सधार होगा। अधिकारी ने कहा, 'भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के तहत इसे लाने के बाद इससे बीमाकर्ताओं और बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य सेवा के साथ मोलभाव करने में मदद मिलेगी।'

बीएस सूडोकू 5331 परिणाम संख्या 5330

9 5 6 9 8 4 7 1 2 3 6 5 8 3 1 4 9 8 1 5 3 8 2 3 4 9 1 6

8 6 4 1 5 9 4 8 6 2 8 6 4 2 7 3 9 1 5 4 7 9 5 8 1 6 2 3 3 5 1 9 2 6 8 7 4 6 8 2 3 4 7 1 5 9 1 9 6 7 3 8 5 4 2 5 4 7 6 1 2 3 9 8 2 3 8 4 9 5 7 6 1

कैसे खेलें ? बहुत आसान

हर रो. कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

डिस्क्लेमर.. बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितयों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज्जनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज्जनेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज्जनेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मैं. बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।